

## —प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

दिनांक- 11.05.2021

### थाना कछवां पुलिस द्वारा 85 शीशी अवैध देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण व कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु चलाये गये जा रहे सघन अभियान के क्रम में थाना कछवां पुलिस द्वारा 85 शीशी अवैध देशी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 11.05.2021 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद ओझा थाना कछवां मय हमराह गश्त/ चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि निगतपुर रेलवे स्टेशन के पास दो व्यक्ति अण्डे की दुकान में देशी शराब रखकर बेच रहे हैं, इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा निगतपुर रेलवे स्टेशन के पास उक्त दुकान पर दबिश दी गयी तो दुकान के पास खड़े लोग भागने लगे दुकान के अन्दर से दो व्यक्ति दरवाजा बन्द करने का प्रयास करने लगे, पुलिस टीम द्वारा दुकान के अन्दर से दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, दुकान के अन्दर दो कार्टून में रखे थे जिसमें एक कार्टून में 40 शीशी तथा दूसरे में 45 शीशी इस प्रकार कुल 85 शीशी अवैध देशी शराब (प्रत्येक 200 एमएल) बरामद किया गया, जिसपर देशी शराब ब्लू लाइन देशी शराब मसाला लिखा हुआ था। पकड़े गये दोनो व्यक्तियो ने अपना नाम धमेन्द्र पटेल पुत्र राजेन्द्र पटेल व साहब पटेल पुत्र राजेन्द्र पटेल निवासीगण चकिया थाना कछवां मीरजापुर बताया। जिनको नियमानुसार समय 11.55 बजे गिरफ्तार कर थाना कछवां पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

### विवरण पूछताछ-

गिरफ्तार दोनो अभियुक्त सगे भाई हैं, उन्होने पूछताछ में बताया की हमलोगो की निगतपुर स्टेशन के पास अण्डे व कोल्ड ड्रिन्क की दुकान है, जिसकी आड़ में देशी शराब को अपने दुकान में रखकर लोगो को कोरोना कर्फ्यू के चलते अधिक दामों में बेचते थे।

### गिरफ्तारी का स्थान व समय-

निगतपुर रेलवे स्टेशन, दिनांक 11.05.2021 समय 11.55 बजे।

### नाम पता अभियुक्त-

- 1-धमेन्द्र पटेल पुत्र राजेन्द्र पटेल निवासी चकिया थाना कछवां मीरजापुर उम्र करीब 28 वर्ष।
- 2-साहब पटेल पुत्र राजेन्द्र पटेल निवासी चकिया थाना कछवां मीरजापुर उम्र करीब 21 वर्ष।

### विवरण बरामदगी -

दो कार्टून में कुल 85 शीशी अवैध देशी शराब (प्रत्येक 200 एमएल)

### गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद ओझा थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।
- 2-हे0का0 धमेन्द्र सिंह थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।
- 3-का0 शिवकरन पाल थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।

